









# कम हो तनाव तो केश रहे लाजवाब

विता चिंता के समान होता है, जिसने जटदी जला दें अच्छा है। यहां तो चिंताओं के बीच ही लोग जीवन-यापन के तौर-तरीके सीखते हैं। किसी की जब भी पैसे नहीं हैं तो किसी को नौकरी की चिंता सता रही है। इसी चिंता की चिंता में नौजवानों के बाल जल रहे हैं केशों का टूटना या यों कहें कि गंजापन की अंधी दौर चल पड़ी है। जिसमें बहुत कम ही लोग सुरक्षित हैं। ऐसे में भी डॉक्टर मानते हैं कि बाल गिरना एक चिकित्सकीय बीमारी है, जिसका निदान संभव है। हेयर ट्रांसफॉल व त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित शर्मा कहते हैं कि बाल कम होने के अनेकों कारण हैं। पैसों की कमी के बीच भी जीवन तनाव मुक्त जीवा जा सकता है। खानापान का भी केश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर मानते हैं कि शुरू से ही कृष्ण चीजों का खायाल रखें तो गंजापन की समस्या से बचा जा सकता है। बाल गिरने की रोकथाम करने और उपचार के लिए एक कारगर व सुरक्षित विकल्प के लिए डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।

## रसी या सिकरी है झाड़ने का मूल कारण

सर की त्वचा में कुपोषण या रुखेपन के कारण जड़ों की त्वचा सूख कर झाड़ने लगती है। जिसे सामान्य भाषा में रसी या सिकरी कहा जाता है। रसी होने पर बाल झाड़ने शुरू हो सकते हैं।

## सिर को साफ रखें

फंगल संक्रमणों से बचने के लिए अपने सिर को साफ रखें। अपने बालों को नियमित रूप से धूने, गंदगी को साफ करने और ज्यादा तेल की वजह से सिर की त्वचा के बदल हो जाने वाले छिंदों को खोलने के लिए किसी हल्के शैम्पू का इस्तेमाल करें। आप अपने बालों को मुलायम बनाने और उलझाने से रोकने के लिए किसी सौम्य कंडीशनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सौम्य और प्राकृतिक हेयरस्टाइल तकनीकों का चुनाव करें।



## रसी या सिकरी का उपचार

बाल धोने के आधा घंटे पूर्व एक-दो नींबू काटकर बालों में मल लें तथा हल्के गरम पानी से सर धो लें। इससे रसी का सफाया हो जाता है। दो किलो पानी में नींबू रस निचोड़कर एक समान तक प्रतिदिन अच्छी प्रकार से केश धोएं। नारियल के तेल में तेल से आधा कपूर, नींबू का रस मिलाकर जड़ों में हल्की मालिश करें और रोज मोरे दात वाले कंधे से हन्ते हाथों से मालिश करें। बालों को साबुन से न धोकर रीठ से धोएं।

## बाल कम होने के कारण

विता, लंबी बीमारी या शैत्यक्रिया के कारण तनाव होता है। प्रोटीन, आयरन, जिक या बायोटिन जैसे अवश्यक पोषक पदार्थों की कमी होता है। लिहाजा पोषक तत्वों से खाए खाद्य पदार्थों को धोकर दें।

योन हार्मोनों के स्तर में अवानक बदलाव आना, मसलन महिलाओं में डिलीवरी के बाद। सिर में फंगल संक्रमण होना। हेयरड्रेसिंग (केश सज्जा) तकनीकों का इस्तेमाल करना, जैसे - क्रस्कर गूँथना, मोड़ना या बालों को अत्यधिक तापमान में रखना। लीविंग, कलरिंग और परमिंग, जैसे - प्रबल रसायनों के इस्तेमाल से बालों का उत्तरावर करना। ये बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं और इसके कारण बाल टूटे और छाड़ते हैं। एटीबायोटिक्स, बीटा लॉकर्स और कॉर्टीसोइड्स जैसी औषधियां लेना। कीमोथेरेपी बालों की कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है।

बालों का खायाल रखने के नुस्खे

हेलमेट, कधियों, हेयरब्रशों और टोपियों को दूसरे लोगों के साथ साझा न करें। बाल गीते हो तो इन पर ब्रश या कंधी न करें। या बहुत कसकर ब्रश नहीं करें। चिंता, अवसाद और अत्यधिक तापमान पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्यवर्द्धक और संतुलित आहार लें। हड़ी सविजया, नारियल, सोया, मछली, अंडे, लीवर और बादाम तथा अखोराट जैसी गिरियां आपके बालों को अच्छा पोषण प्रदान कर सकती हैं।

## हैप्पी रहने के 9 मंत्र

●जिस जगह या स्थान में जाने पर आपके मन को सुकून मिलाता हो, ऐसी जगह पर बार-बार जाएं।

●एक काहवात है कि किसी को नाराज करने में एक मिनट का भी समय नहीं लगता, लेकिन किसी को हंसने में कई घंटे बीत जाते हैं। इसलिए दूसरों को हंसने का अवसर अवश्य प्रदान करें।

●सकारात्मक सोच से कठिन से कठिन दिखाई देने वाले काम आसानी से संपन्न हो जाते हैं। यदि आप अपने मन में सकारात्मक भाव जाग्रत करेंगी तो आपका हर काम आसानी से पूरा हो जाएगा।

●अपनी छोटी-बड़ी हर उपलब्धि का जशन मनाएं। कभी भी इस इंतजार में छोटी उपलब्धि को दरकिनार न करें कि जब बड़ी उपलब्धि हासिल होगी तो जशन मना एंगी।

●तन की सुंदरता के बजाय मन की सुंदरता को महत्व दें। तन की सुंदरता तो कुछ वर्षों की मेहमान है, जबकि मन की सुंदरता तो हमेशा साथ रहेगी।

●अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करें। यदि आप हरेक को शंकालु दृष्टि से देखेंगी तो जिंदगी का आनंद उड़ने से बचत रह जाएंगी।

●कौन कैसा है इस बात पर ज्यादा दिमाग न लगाएं। इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अपने को और अच्छा कैसे बना सकती हैं।

●जो बात दिल में हो उसे कहने में सक्ति न करें। कई बार हम अपने दिल की बात जुबां पर नहीं ला पाते और हमें बाद में पछाना पड़ता है।

●बिस्तर पर जाने से पहले सारी चिंताओं को अलग कर दें और बेफ्रिक होकर लें।

# त्वचा कहे नो चिपचिप

## चंदन एक फायदे अनेक



तैलीय और चिपचिपी त्वचा चेहरे के आकर्षण को कम कर देती है, लेकिन ऐसी त्वचा की अगर सही देखभाल की जाए तो वह निखर उठेगी। इसके लिए आप यहां दिए कदरती उपायों को अपनाएं। त्वचा का तैलीय होना कोमलता बरकरार रखने के लिए प्राकृतिक तेल का सिर्कीशन करती हैं तो एकने और मुंहासों की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में धूल-मिट्टी और प्रदूषण के कारण त्वचा के छिद्र भी बंद हो जाते हैं। अगर आप भी तैलीय त्वचा से परेशन हैं तो यहां दिए गए कुदरती उपायों को अपनाएं और पाएं साफ-सुथरी व निखरी त्वचा।

## 6 टिप्स हैल्डी त्वचा के लिए

● सेब को छोलकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे व गर्दन पर लगाएं। 20 मिनट बाद हल्के गुणने पानी से चेहरा साफ कर लें। सेब एप्चर का बेहतरीन स्रोत होता है, जो त्वचा को टोन करता है।

● एक टी स्पून चंदन पाउडर में गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बनाएं। फिर उसे चेहरे पर लगाएं। सुखने पर नहीं लगते हैं। इससे त्वचा के दाग-धब्बे और एकने भी दूर होंगे।

● 1 टी स्पून बेसन में चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बनाएं। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो उसकी जगह पर दही मिला कर सकती है। आपको का आसपास का हिस्सा छोड़कर लगाएं। सुखने पर हल्के हाथों से मतरने हुए छुड़ाएं। त्वचा त्वचा का लालान दूर करता है। हल्दी त्वचा की चमक बरकरार रखती है।

● तैलीय त्वचा को भी मायस्चराइजर की जरूरत होती है और इसके लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं। शहद एक बेहतरीन कुदरती मायस्चराइजर होता है। इसे चेहरे पर लगाएं। फिर धो लें। यह त्वचा की जलन, मुहासे और कालेपान को दूर करता है। साथ ही उस कांतिमय और लचीली बनाता है।

● 1 टेबल स्पून चावल के आटे में 1 टेबल स्पून कॉर्नफलोर और नींबू के रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। फिर भीतर से बाहर की तरफ गोली और खाद्य धब्बे लगाएं। चावल का आटा डेंड सेल्स हटाता है। त्वचा के छिद्र भी खोलता है, ताकि साफांसोसीजन त्वचा के भीतर जाए।

● 1 टेबल स्पून चावल के आटे में 1 टेबल स्पून कॉर्नफलोर और नींबू के रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। फिर धो लें। यह सूखी त्वचा को नमी प्रदान करता है।

● खीरे से बना फेस पैक फायदेमंद

यदि आपकी त्वचा तैलीय है तो खीरे का फेस पैक आपके लिए बहुत अच्छा एक अच्छा फेस पैक है। खीरे का फेस पैक बनाने के लिए एक खीरे में एक अंडे की सफेदी,

1 चम्मच नींबू का रस और पुदीने की 5-6 पत्तियों को मिलाकर पीस लें। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। यह फेस पैक को चेहरे पर लगाएं।

लगाएं और कुछ देर बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें।

## मुल्तानी मिट्टी जरूर इस्तेमाल करें

अगर आप महंगे-महंगे ब्लूटी प्रोडक्ट, शैम्पू, ऑलिव औयल का इस्तेमाल करते हो तो थक चुकी हैं, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ है तो एक बार मुल्तानी मिट्टी जरूर इस्तेमाल करें। जानी-मानी सौन्दर्य विशेषज्ञ भारती तेजों का कहना है कि मुल्तानी मिट्टी बाज़ार का खेज़ा है। ये नेचुरल कंडीशनर भी हैं और ब्लैंच भी हैं। ये सौन्दर्य निखारने का सबसे सस्ता और आयुर्वेदिक फ





फिल्टर कैपिटल ने वित

पोषण से 800 करोड़ जुटाए

नई दिल्ली।

प्रौद्योगिकी-कंट्रिट

उदम्प मूँजी कंपनी फिल्टर कैपिटल

ने अपने पहले वित पोषण चक्र में

800 करोड़ रुपये का वित पोषण

हासिल किया है।

कंपनी बायार के

अनुसार, भारतीय संस्थागत

निवेशक और एचडीएफ्सी फंड

ऑफ फंड्स, सिड्नी, एसआरआई

फंड, आस्ट्रेलिया, डीसीपी

परिवार कार्यालय के

संस्थागत आकाश प्रकाश तथा

डीम 11 के मुख्य कार्यालय

अधिकारी (सीईओ) हर्ष जैन ने इस

वित पोषण में प्रतिबद्धता जतायी।

रियलनी का लक्ष्य इस साल

'पी लीरीज' में प्रभुत्व पाना

realme

नई दिल्ली। स्मार्टफोन निर्माता

रियलमी इंडिया का लक्ष्य इस साल

'पी सीरीज' के लिए बाजार नए

रियलरों के पेश करने के साथ

15,000-25,000 रुपये के मोबाइल

फोन खंड में सबसे अधिक

हिस्सेदारी हासिल करना है।

रियलमी इंडिया के व्यापार एप्रिल

के प्रमुख तारीखों प्रसार दास ने 'पी

सीरीज' पर योजनाओं की जानकारी

साझा करते हुए प्रक्रियाएं से कहा कि

2024 में कंपनी का लक्ष्य

फिल्मकार्ट के साथ अपनी साझेदारी

के तहत संचयी रुप से पांच करोड़

स्मार्टफोन की विक्री करना है।

हुंडई और किआ ने एक्साइट

एनर्जी से गिलाया हाथ

हुंडई मोटर्स

समूह ने एक बायार में

कहा, हुंडई मोटर कंपनी और समूह

की कंपनी कार्पोरेशन ने

अपनी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी

स्थानीय वित के तहत प्रमुख

भारतीय बैटरी कंपनी एक्साइट

एनर्जी सॉल्यूशंस टिमिटेड के साथ

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनटीपीसी पांच गीगावाट

क्षमता तक करेगी विस्तार

एनटीपीसी NTPC

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की

बिजली कंपनी एनटीपीसी ने

सोमवार को कहा कि उसने वित

पोषण 2024-25 में अपनी उत्पादन

क्षमता को पांच गीगावाट तक

बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है।

कंपनी ने बयान में कहा कि

एनटीपीसी का लक्ष्य तीन गीगावाट

तक नवीनीयों पर ऊंची क्षमता को

जोड़ना है। जो पर्यावरण संरक्षण के

लिए उत्पादन का अल्टीमेट

द्वारा दिया गया है।

इसके प्रतिबद्धता का

तार हरण है। इसके प्रतिबद्धता को

अपनी तापीय ऊंची क्षमता में दो

गीगावाट की वृद्धि करेगी।

आधार हाइसिंग फाइनेंस

को आईपीआई लाने जंजीरी

नई दिल्ली। वैश्विक निवेश फं

ट्लैक्सेंस समर्थन आधार

हाइसिंग फाइनेंस टिमिटेड को

आर्थिक सार्वजनिक नियम

(आईपीओ) के जरिये 5,000

करोड़ रुपये

जुनाने के लिए

सेवी की मंजूरी

मिल गई है।

बायार को

नियामक ने

सोमवार को एक अपडेट के जरिये

यह जानकारी दी। आईपीओ

दस्तावेजों (डीआरएसपी) के

अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत

1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर

जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000

करोड़ रुपये की विक्री पेशकश

(एपीएस) भी शामिल है।

Aadhar

सेवी

मिल गई है।

बायार

नियामक ने

यह जानकारी दी। आईपीओ

दस्तावेजों (डीआरएसपी) के

अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत

1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर

जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000

करोड़ रुपये की विक्री पेशकश

(एपीएस) भी शामिल है।

सोमवार को एक अपडेट के जरिये

यह जानकारी दी। आईपीओ

दस्तावेजों (डीआरएसपी) के

अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत

1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर

जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000

करोड़ रुपये की विक्री पेशकश

(एपीएस) भी शामिल है।

सोमवार को एक अपडेट के जरिये

यह जानकारी दी। आईपीओ

दस्तावेजों (डीआरएसपी) के

अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत

1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर

जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000

करोड़ रुपये की विक्री पेशकश

(एपीएस) भी शामिल है।

सोमवार को एक अपडेट के जरिये

यह जानकारी दी। आईपीओ

दस्तावेजों (डीआरएसपी) के

अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत

1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर

जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000

करोड़ रुपये की विक्री पेशकश

(एपीएस) भी शामिल है।

सोमवार को एक अपडेट के जरिये

यह जानकारी दी। आईपीओ

दस्तावेजों (डीआरएसपी) के

अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत

1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर

जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000

करोड़ रुपये की विक्री पेशकश

(एपीएस) भी शामिल है।

सोमवार को एक अपडेट के जरिये

यह जानकारी दी। आईपीओ

दस्तावेजों (डीआरएसपी) के

अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत

1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर

जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000

करोड़ रुपये की विक्री पेशकश

(एपीएस) भी शामिल है।

सोमवार को एक अपडेट के जरिये

यह जानकारी दी। आईपीओ

दस्तावेजों (डीआरएसपी) के

अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत

1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर

जारी किए जाएंगे। इसम

